



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, सितम्बर 14—सितम्बर 20, 2008, शनिवार/भाद्र 23—भाद्र 29, 1930

No. 30] NEW DELHI, SEPTEMBER 14—SEPTEMBER 20, 2008, SATURDAY/BHADRA 23—BHADRA 29, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2008

आ. अ. 74.—यतः, निर्वाचन आयोग का समझाना हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2005 (अक्तूबर-नवम्बर) के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्धन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :-

सारणी				
क्र.सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निराक्षरता का कारण
1	2	3	4	5
1.	चिराग विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005 (अक्टूबर-नवम्बर)	60-शिवहर	राजकुमार गिरि, ग्राम-कोल्हडा, पो-कोल्हडा ठीकड़ा, थाना-पुर्णिया, जिला-शिवहर, बिहार।	निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ें भी लक्षा पश्चिम करने में असमर्थ रहे।
2.	-वही-	-वही-	अब्दुल रहमान, ग्राम-नयागांव, पो-नयागांव, थाना-श्यामपुर, भदरवा, जिला-शिवहर, बिहार।	-वही-
3.	-वही-	126-बनमनहरी (अ.अ.)	रामदेव कर्षि, ग्राम-राधानगर, पो-भरतग, थाना-बनमनहरी, जिला-पूर्णिया, बिहार।	-वही-
4.	-वही-	159-पूर्णिया	विन्ध्य प्रकाश झा, ग्राम-चुनापुर, पो-चुनापुर हवाई अड्डा, थाना-अ, ग्राम-जिना-पूर्णिया, बिहार।	-वही-
5.	-वही-	-वही-	गणेश मंगल मुंशी, मधुबनी-कर्णाली, जिला-पूर्णिया, बिहार।	-वही-
6.	-वही-	-वही-	सुरेश शशि, मिस्त्री टोला, धनभार, थाना-क, नगर-जिना-पूर्णिया, बिहार।	-वही-
7.	-वही-	212-भुवना	रमेश पासवान, ग्राम-इलाहाबाद, पो-बुद्धासन, थाना-भुवना, जिला-कैमूर, बिहार।	-वही-
8.	-वही-	229-बेलगाँव	मं. एकनाम उद्दीन, ग्राम-मलुआ, थाना-बेलगाँव, पो-गया, बिहार।	-वही-
9.	-वही-	230-कनि	दोष नारायण शर्मा, ग्राम-गैना, पो-मुलखा, जिला-औरंगाबाद, बिहार।	-वही-
10.	-वही-	-वही-	राज नन्दन साँझो, आ. पो-गोला, जिला-गया, बिहार।	-वही-
11.	-वही-	-वही-	संजय पासवान, ग्राम-अगांव, पो-अगांव, जिला-गया, बिहार।	-वही-

1	2	3	4	5
12.	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005 (अक्तूबर-नवम्बर)	230-कोंच	सुजीत कुमार, ग्राम-पो.-सोनरा, जिला-गया, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13.	-वही-	231-गया मुफरिसल	सूर्यदेव वर्मा, ग्राम-पो.-मदरडौंड, थाना-वजीरगंज, जिला-गया, बिहार।	-वही-
14.	-वही-	-वही-	अजय यादव, ग्राम-पो.-कंडी, नवादा-बीथो-शरीफ, थाना-चन्दौली, जिला-गया, बिहार।	-वही-
15.	-वही-	-वही-	जितेंद्र राम, ग्राम-पुनाकला, पो.-लोदीपुर, थाना-परैया, जिला-गया, बिहार।	-वही-
16.	-वही-	-वही-	फुलमती देवी, केन्दुआ टोला-गोपी, बिगहा, पो. अम्बा, थाना-मगध मेडिकल, जिला-गया, बिहार।	-वही-
17.	-वही-	-वही-	राजेंद्र पासवान, ग्राम-पुनाकला, पो.-लांदीपुर, थाना-पुरैया, जिला-गया, बिहार।	-वही-
18.	-वही-	-वही-	लासा पासवान, ग्राम-बसौरपुर, पो.-लक्ष्मीपुर, थाना-चन्दौली, जिला-गया, बिहार।	-वही-
19.	-वही-	-वही-	सहाब उद्दीन, ग्राम-कोसमा, पो.-धर्मशाला, थाना-चन्दौली, जिला-गया, बिहार।	-वही-
20.	-वही-	218-अतरी	इन्द्रेन निराला, ग्राम-बहुआरा, पो.-कासबिगहा, थाना-नीमचक बथानी, जिला-गया, बिहार।	-वही-
21.	-वही-	-वही-	महेश कुमार, ग्राम-बहोरमा, पो.-पथरकट्टी, थाना-नीमचक बथानी, जिला-गया, बिहार।	-वही-

[सं. 76/बिहार-विधान सभा/2007]

आदेश से,
आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2008

O. N. 74.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly of Assam, 2005 (October-November) from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure:

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 1 of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State Union Territory, for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No	Particulars of election	Number & Name of Constituency	Name & Address of the candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 of Bihar State (Oct.-Nov.)	66-Sheohar	Shatrudhan Gur, Vill.-Kolhar, P.O.-Kolhar Thoshan, P.S.-Purnahiya, Distt. Sheohar, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	-do-	Abdur Rahman, Vill. Nisapur, P.O.-Nayagaon, P.S. Shrivastpur, Bhathari, Distt.-Sheohar, Bihar	-do-
3.	-do-	126-Bamankhi S.C.I	Ramdeo Rishi, Vill.-Madhounagar, P.O.-Dhathara, P.S. -Bamankhi Distt.-Purnea, Bihar	-do-
4.	-do-	139-Purnea	Bindu Prakash Jha, Vill. Chumapur, P.O.-Chumapur Air Force, Thana K. Nagar, Distt.-Purnea, Bihar	-do-
5.	-do-	-do-	Jagat Mangal Kari, Madhubani Colony, Distt.-Purnea, Bihar	-do-
6.	-do-	-do-	Suresh Rishi, Misir, Tola Banbhag, Thana-K. Nagar Distt.-Purnea, Bihar	-do-
7.	-do-	71-Bhabua	Ramesh Paswan, Vill.-Dargajwan, P.O.-Kuchasari, P.S. Bhabua Distt.-Kaimur, Bihar	-do-
8.	-do-	229-Belagach	Md. Ekramuddin, Vill. P.O.-Valua, P.S. Belagach, Gaya, Bihar	-do-
9.	-do-	210-Konch	Dip Narayan Sharma, Vill.-Gumti, P.O.-Futarkhi, Aurangabad, Bihar	-do-
10.	-do-	-do-	Rajinandan Manghi, Vill.-P.O. Soda, Gaya, Bihar	-do-

1	2	3	4	5
12.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 of Bihar State (Oct-Nov.)	230-Konch	Sujeet Kumar, Vill. + P.O. Solra, Gaya, Bihar,	Failure to lodge any account of election expenses
13.	-do-	231-Gaya Mullassit	Suryadev Verma, Vill. + P.O.-Madardih, P.S. Wazirganj, Distt. Gaya, Bihar	-do-
14.	-do-	-do-	Ajay Yadav, Vill. + P.O. Kandi, Nawada, Bithosharif, P.S. Chandauli, Distt. Gaya, Bihar	-do-
15.	-do-	-do-	Jitendra Ram, Vill. Pankala, P.O.-Lodipur, P.S. Paraly, Distt.-Gaya, Bihar	-do-
16.	-do-	-do-	Phulmati Devi, Kendua Toat, Gopi Bigha, P.O.-Amba, P.S.-Magadha Medical, Distt.-Gaya, Bihar	-do-
17.	-do-	-do-	Rajendra Paswan, Vill. Punakalam, P.O.-Lodipur, P.S. Pariya, Distt.-Gaya, Bihar	-do-
18.	-do-	-do-	Lala Paswan, Vill.-Nasripur, P.O. Laxmipur, P.S. Chandauli, Distt. Gaya, Bihar	-do-
19.	-do-	-do-	Sahab Uddin, Vill. Kosma, P.O. Dharmashala, P.S. Chandauli, Distt.-Gaya, Bihar	-do-
20.	-do-	238-Auri	Indradev Nirala, Vill.-Baluwara, P.O.-Karu Bigha, Thana-Nimchak Bhathana, Distt.-Gaya Bihar	-do-
21.	-do-	-do-	Mahesh Kumar Vill.-Bahorma, P.O.-Patharkatti, Thana-Nimchak Bhathani, Distt.-Gaya, Bihar	-do-

[No. 76: BR-I A/2007]

By Order,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2008

आ. अ. 75.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट पञ्जाब विधान सभा, 2007 के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सप्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अतः निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

3340 41/08-2

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की याचों के स्टम्प (८) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की नगरीय से तीन वर्ष की अवधिवधि के लिए निर्दिष्ट घोषित करता है :-

सांगणी

क्र.सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निर्वाचन का कारण
1	2	3	4	5
1.	पंचायत विधान सभा के आधारण निर्वाचन, 2007	43-कपवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री अश्वनी कुमार, मोहल्ला गोविन्दपुरा, तह. फगवाड़ा, पंजाब	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा अभिलेख करने में असफल रहा।
2.	वही	-वही	श्री जसवीर सिंह, ग्राम ब. डाक. 12 चाफ़ेवा, तह. फगवाड़ा, पंजाब	वही
3.	वही	59 लुधियाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री निर्मल सिंह, मा. नं.-1810, विजय नगर इंडस्ट्रियल एरिया-1, लुधियाना, पंजाब	विधि द्वारा अपेक्षित सीत में निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखल करने में असफल रहा।
4.	वही	81 मालेरकोटला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री पुनीत सिंह, ग्राम इसरा, आधोगला, तहसील बुरी, पंजाब	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखल करने में असफल रहा।
5.	वही	वही	श्री मकसूद उल-हक, कार्ट नं. 22, म. नं. 262 मोहल्ला-रथमाता, जंज पर्सिद्ध के सामने, संगहन पेट, मालेरकोटला, पंजाब	वही-
6.	वही	-वही-	श्री मोहम्मद अनवर, मा. नं. 596 कार्ट नं. 18, मालेरकोटला, पंजाब	वही
7.	वही-	108 कानिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री गजु कुमार, मा. नं. 640, राबारा नगर, पेट गल्ली 3, किल्लानवाही रोड, ग्राम किल्लानवाही, तहसील मलोटा, जिला मुक्तसर, पंजाब	वही
8.	-वही	-वही	श्री बलविन्दर सिंह कामरोड, ग्रामपाल डाकघर सामूची, तहसील-मलोटा, जिला-मुक्तसर, पंजाब	वही
9.	वही-	-वही	श्री अर्जुनरपाल सिंह आलम डाकघर गिरोआला, ग्राम जसोबान जिला भाँडवाला, पंजाब	विधि द्वारा अपेक्षित सीत में निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखल करने में असफल रहा।

1	2	3	4	5
10. कोई भी	पंजाब विधान सभा का सामान्य निर्वाचन, 2007	114-जोगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री सुरजीत सिंह, सुपुत्र/तेजा सिंह, मकान नं. 461, ग्राम धुधियावाली, तहसील एवं जिला मनसा, पंजाब	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11.	-वही-	-वही-	श्री बलबिन्दर सिंह, सुपुत्र/चंत सिंह, मकान नं. 597, ग्राम-अकलिया, तह. एवं जिला मनसा, पंजाब	-वही-
12.	-वही-	-वही-	श्री हरचरण सिंह, सुपुत्र/सुखदेव सिंह, मकान नं. 98, ग्राम-बुर्ज, हारी तह. एवं जिला-मनसा, पंजाब	-वही-
13.	-वही-	-वही-	श्री मल्लिक्यत सिंह, सुपुत्र गरुजा सिंह, दिल्लीफट्टी, ग्राम भाइनी, बाधा, तह. एवं जिला मनसा, पंजाब	-वही-
14.	-वही-	115-मानसा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री दलजीत सिंह, ग्राम मनसा खुर्द, तह. एवं जिला मनसा, पंजाब	-वही-

[सं. 76/पंजाब-वि.स./2008(3)]

आदेश से,
स्टैंडहोप मुहल्ले, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2008

O. N. 75.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Punjab Legislative Assembly, 2007 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and Rules and Order made thereunder, as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act 1951, said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Number and Name of Constituency	Name and Address of the contesting candidate	Reasons for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Punjab Legislative Assembly, 2007	43-Phagwara A.C.	Sh. Ashwani Kumar Muhalla Gobindpura, Teh Phagwara, Punjab.	Failure to lodge account of election expenses

1	2	3	4	5
2.	General Election to the Punjab Legislative Assembly, 2007	43-Phagwara A.C.	Sh. Jasbir Singh, V.P.O. Chakprema, Teh. Phagwara, Punjab	Failure to lodge account of election expenses
3.	-do-	59-Ludhiana A.C.	Shri Nirmal Singh, H. No. 1810, Vijay Nagar, Indl. Area-A, Ludhiana, Punjab.	Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law
4.	-do-	81-Malerkotla A.C.	Sh. Gurpreet Singh, Village Isra, P.O. Dhadhogal, Tehsil Dhuri, Punjab.	Failed to lodge account of election expenses
5.	-do-	-do-	Sh. Maqsood-ul-Haq, Ward No. 22 H. No. 162, Mohalla Rathsaja Opp. 156th Masjid, Sirhind Gate, Malerkotla, Punjab.	-do-
6.	-do-	-do-	Sh. Mohammad Anwar, H. No. 556, Ward No. 18, Malerkotla, Punjab.	-do-
7.	-do-	108-Lazari A.C.	Shri Raju Kumar, H. No. 640, Rajguru Nagar Band Gali-3, Killanwal, Rural, Village Killanwal-5, Tehsil Malout, District Muktsar, Punjab	-do-
8.	-do-	-do-	Shri Balwinder Singh, Conrade V & PO, Lambi, Tehsil Malout, District Muktsar, Punjab.	-do-
9.	-do-	-do-	Shri Atinderpal Singh Khosla, P.O. Sidhuwal, Village Jassowal, District Patiala, Punjab	Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law.
10.	-do-	114-Jogindra A.C.	Sh. Surjit Singh, S/o, Teja Singh, House No. 461, Village Thuthiwal, Teh. and Distt. Mansa, Punjab.	Failure to lodge account of election expenses
11.	-do-	-do-	Sh. Balwinder Singh, S/o Chet Singh, House No. 297, Village Akhra, Tehsil & Distt. Mansa, Punjab.	-do-
12.	-do-	-do-	Sh. Harcharan Singh, S/o Sukhdev Singh, House No. 98, Village Burj, Hari, Teh and Distt. Mansa, Punjab.	-do-
13.	-do-	-do-	Sh. Malkiat Singh S/o Gurm Singh, Bhillon Patti, Village Bhami Bagra, Teh. and Distt. Mansa, Punjab.	-do-
14.	-do-	115-Mansa A.C.	Sh. Daljit Singh, Vill. Manot Khurd, Teh. and Distt. Mansa, Punjab	-do-

(No. 36 P.W.A. 2008/34)

By Order,

STANDING CHIEF CLERK

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2008

आ.अ. 76.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श में एतद्वारा श्रीमती मनीषा नन्दा, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री अनिल कुमार खाची, आई.ए.एस. (एचपी: 1986) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अनिल कुमार खाची, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभागों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अनिल कुमार खाची, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदार्थित किया जाएगा।

[सं. 154/हि.प्र./2008 का प्रशासन]

आदेश से,

एस. आर. कार, अवर सचिव

New Delhi, the 19th September, 2008

O. N. 76.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Himachal Pradesh hereby nominates Shri Anil Kumar Khachi, IAS (HP: 1986), as the Chief Electoral Officer for the State of Himachal Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders *vide* Smt. Manisha Nanda, IAS.

2. Shri Anil Kumar Khachi shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Himachal Pradesh which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Anil Kumar Khachi while functioning as the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Himachal Pradesh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/HP/2008-P. Admn.]

By Order,

S. R. KAR, Under Secy.

3340 GI/08-3